

बीमाकर्ता का नाम: भारतीय जीवन बीमा निगम Name of the Insurer: Life Insurance Corporation of India
पंजीकरण संख्या 512 और आईआरडीएआई के साथ पंजीकरण की तिथि 01.01.2001 Registration No. 512 and Date of Registration with the IRDAI: 01.01.2001

30.06.2026 को समाप्त अवधि के लिए राजस्व खाता REVENUE ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED JUNE 30, 2026

पॉलिसीधारकों का खाता (तकनीकी खाता) Policyholders' Account (Technical Account)

(राशि रुपये करोड़ में)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची संदर्भ प्रपत्र संख्या Schedule Ref. Form No.	जुड़ा हुआ व्यवसाय LINKED BUSINESS					गैर-लिंक्ड व्यवसाय NON-LINKED BUSINESS										सीएस्सी CRAC	कुल योग GRAND TOTAL	
		जीवन LIFE	पेंशन PENSION	स्वास्थ्य HEALTH	परिवर्तनीय VAR. INS	कुल TOTAL	जीवन LIFE	वार्षिकी ANNUITY	पेंशन PENSION	स्वास्थ्य HEALTH	परिवर्तनीय VAR. INS	कुल TOTAL	जीवन LIFE	वार्षिकी ANNUITY	पेंशन PENSION	स्वास्थ्य HEALTH			परिवर्तनीय VAR. INS
अर्जित प्रीमियम - शुद्ध Premiums earned – net																			
(क) प्रीमियम (a) Premium	एल 4 L-4	5,345.53	448.93	9.73	-	5,804.19	62,638.11	0.37	49.42	-	-	62,687.90	29,940.97	3,187.62	25,763.23	35.99	0.16	58,927.97	0.06
(ख) पुनर्बीमा अंतरण (b) Reinsurance ceded		(0.26)	-	(1.01)	-	(1.27)	(24.65)	-	(0.02)	-	-	(24.67)	(131.60)	-	-	(12.17)	-	(143.77)	-
(ग) पुनर्बीमा स्वीकृत (c) Reinsurance accepted		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवेशों से आय: Income from Investments																			
(क) ब्याज, लाभांश और किराया - संकल (a) Interest, Dividends & Rent – Gross		477.09	93.73	20.14	-	590.96	54,305.13	95.53	785.06	-	-	55,185.72	13,883.29	3,199.79	15,161.14	14.05	0.16	32,258.43	2.83
(ख) निवेशों की बिक्री / मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investments		71.07	67.30	15.72	-	154.09	8,457.68	1.78	6.67	-	-	8,466.13	7,906.28	15.64	2,318.93	4.64	0.04	10,245.53	0.12
(ग) (निवेशों की बिक्री/ मोचन पर हानि) (c) (Loss on sale/ redemption of investments)		(5.08)	(2.71)	(0.55)	-	(8.34)	(559.66)	-	-	-	-	(559.66)	(11.02)	-	(22.80)	-	-	(33.82)	(0.58)
(घ) पुनर्मूल्यांकन/उचित मूल्य में परिवर्तन पर अंतरण/ लाभ* (d) Transfer/Gain on revaluation/change in fair value*		2,595.40	445.50	25.77	-	3,066.67	4.25	-	-	-	-	4.25	-	-	-	-	-	-	-
(इ) प्रीमियम का परिशोधन/ निवेशों पर छूट (e) Amortisation of Premium / Discount on investments		0.01	(0.01)	(0.01)	-	(0.01)	18.25	(1.93)	(0.96)	-	-	15.36	0.90	(5.55)	(31.62)	0.03	-	(36.24)	0.01
अन्य आय Other Income		(0.30)	-	-	-	(0.30)	587.58	-	-	-	-	587.58	10.89	(0.20)	36.96	-	-	47.65	-
शेयरधारकों के खाते से अंशदान: Contribution from Shareholders' A/c:																			
(क) प्रबंधन के अतिरिक्त व्यय के लिए (a) Towards Excess Expenses of Management		-	-	-	-	-	597.70	-	4.81	-	-	602.51	-	-	-	-	-	-	-
(ख) अन्य (b) Others		-	-	-	-	-	1.78	-	-	-	-	1.78	-	-	-	-	-	-	-
कुल (अ) TOTAL (A)		8,483.46	1,052.74	69.79	-	9,605.99	1,26,026.17	95.75	844.98	-	-	1,26,966.90	51,599.71	6,397.30	43,225.84	42.54	0.36	1,01,265.75	2.44
कमिशन Commission	एल 5 L-5	115.52	8.15	0.41	-	124.08	4,342.72	0.01	0.99	-	-	4,343.72	503.75	58.88	-	1.72	0.01	564.36	-
बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	एल 6 L-6	252.12	22.57	2.22	-	276.91	7,446.65	1.48	11.37	-	-	7,459.50	609.42	65.50	89.55	7.71	-	772.18	0.05
संदीप ऋणों के लिए प्रावधान Provision for doubtful debts		(0.02)	-	-	-	(0.02)	(546.58)	-	-	-	-	(546.58)	(6.56)	(14.92)	-	-	(0.01)	(21.49)	-
दुर्घत ऋणों का अपरलेखन Bad debts written off		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर के लिए प्रावधान (शुद्ध) Provision for Tax (Net)		13.06	-	1.82	-	14.88	(147.01)	-	-	-	-	(147.01)	1,638.29	51.34	30.23	5.83	-	1,725.69	4.76
प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) Provisions (other than taxation):																			
(क) निवेश के मूल्य (शुद्ध) में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments (Net)		-	-	-	-	-	2.18	-	-	-	-	2.18	0.42	-	-	-	-	0.42	-
(ख) अन्य के लिए (b) Others		-	-	-	-	-	(16.62)	-	-	-	-	(16.62)	0.80	-	-	-	-	0.80	-
शुल्क पर वस्तु एवं सेवा कर Goods and Services Tax on ULIP Charges		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ब) TOTAL (B)		380.68	30.72	4.45	-	415.85	11,081.34	1.49	12.36	-	-	11,095.19	2,746.12	160.80	119.78	15.26	-	3,041.96	4.81
भुगतान किए गए लाभ (शुद्ध) Benefits Paid (Net)	एल 7 L-7	1,610.29	333.31	35.31	-	1,978.91	60,639.05	82.07	601.82	-	-	61,322.94	22,708.01	2,490.29	31,931.85	6.70	9.55	57,146.40	0.33
भुगतान किया गया अंतरिम बोनस Interim Bonuses Paid		-	-	-	-	-	928.33	-	0.09	-	-	928.42	-	-	-	-	-	-	-
जीवन पॉलिसियों के संबंध में देयता के मूल्यांकन में परिवर्तन Change in valuation of liability in respect of life policies:																			
(क) संकल ** (a) Gross **		(14.27)	(2.85)	(0.40)	-	(17.52)	53,352.00	(40.00)	180.20	-	-	53,492.20	14,730.10	3,393.65	10,966.55	(19.48)	(2.57)	29,068.25	(11.56)
(ख) पुनर्बीमा में अंतरित राशि (b) Amount ceded in Reinsurance		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) पुनर्बीमा में स्वीकृत राशि (c) Amount accepted in Reinsurance		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(घ) संबद्ध देयताओं के प्रावधान में अंतरण (d) Fund Reserve for Linked Policies		6,074.68	587.93	17.96	-	6,680.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(इ) बंद करने निधियों का अंतरण (e) Fund for Discontinued Policies		354.55	71.69	-	-	426.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(च) भविष्य विनियोजन के निधियों का अंतरण -संबद्ध व्यवसाय (f) Fund for Future Appropriations-Linked Business		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (स) TOTAL (C)		8,025.25	990.08	52.87	-	9,068.20	1,14,919.38	42.07	782.11	-	-	1,15,743.56	37,438.11	5,883.94	42,898.40	(12.78)	6.98	86,214.65	(11.23)
अधिरोप/ (घाटा) (द) =(अ)-(ब)-(स) SURPLUS/ (DEFICIT) (D) =(A)-(B)-(C)		77.53	31.94	12.47	-	121.94	25.45	52.19	50.51	-	-	128.15	11,415.48	352.56	207.66	40.06	(6.62)	12,009.14	8.86
शेयरधारकों के खाते से अंतरित राशि (गैर-तकनीकी खाता) Amount transferred from Shareholders' Account (Non-technical Account)		12.20	-	-	-	12.20	-	-	-	-	-	-	793.81	-	-	-	6.62	800.43	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION		89.73	31.94	12.47	-	134.14	25.45	52.19	50.51	-	-	128.15	12,209.29	352.56	207.66	40.06	-	12,809.57	8.86
विनियोजन APPROPRIATIONS																			
शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholders' Account		89.73	31.94	12.47	-	134.14	(0.00)	-	-	-	-	(0.00)	12,209.29	352.56	207.66	40.06	-	12,809.57	8.86
अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves (to be specified)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारती विनियोजनों के लिए निधियों का शेष Balance being Funds for Future Appropriations		-	-	-	-	-	25.45	52.19	50.51	-	-	128.15	-	-	-	-	-	-	-
कुल TOTAL		89.73	31.94	12.47	-	134.14	25.45	52.19	50.51	-	-	128.15	12,209.29	352.56	207.66	40.06	-	12,809.57	8.86

* निदिष्ट मानदंडों के अनुसार प्राप्त लाभ दर्शाता है। Represents the deemed realised gain as per norms specified by the Authority.

** बोनस के आवंटन के बाद गणितीय आरक्षित निधि दर्शाता है। Represents Mathematical Reserves after allocation of bonus

गत वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाने हेतु जहाँ कहीं आवश्यक था, पुनः समूहीकृत/ वर्गीकृत किया गया है। Previous year figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to make them comparable with those of the current year

Breakup of the The total surplus during the period are as follows:

(a) Interim Bonuses Paid: Rs. 928.42 Crore

(b) Allocation of Bonus to policyholders:- NIL

(c) Surplus shown in the Revenue Account: Rs. 12268.09 Crore

(d) Total Surplus: [(a)+(b)+(c)]. Rs. 13,196.51 Crore